

Dated: 12th November, 2025

MegaCorp./Secy/STX/01

BSE Limited Listing Dept./ Dept. of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 Scrip code/ ID: 531417/ MEGACOR

Ref.: Intimation under SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97

dated 2nd July, 2025

Subj.: Newspaper Publication - Public Notice to the shareholders regarding Opening of

Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares of Mega

Corporation Limited

Dear Sir/ Madam,

A copy of Newspaper clippings of the Public Notice published in Business Standard Newspaper (in English and Hindi Language), on 11th November, 2025, in respect of the opening of Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares of Mega Corporation Limited are enclosed herewith for your information.

Submitted for your record.

Thanking you, Yours Faithfully,

For Mega Corporation Limited,

(Mr. Kunal Lalani)

Director

DIN: 00002756

Regd. Office:
62, Upper Ground Floor,
Okhla Industrial Estate-III,
New Delhi-110020
P +91 11 46557134
E info@megacorpltd.com
www.megacorpltd.com
CIN: L65100DL1985PLC092375



PUNJAB GOVERNMENT, DEPARTMENT OF REVENUE, REHABILITATION AND DISASTER **MANAGEMENT (JAGIR BRANCH) PUNJAB TIRATH YATRA SAMITI**

NOTICE INVITING TENDER

Private Sector Partner (Operator(s)) for implementation of Mukh Mantri Titarth Yatra Scheme in the State of Punjab in the Cluster's namely Cluster 1 - Amritsar and Cluster-3- Ludhiana

Dated: 11th November 2025 Punjab Government, Department of Revenue, Rehabilitation And Disaster Management (Jagir Branch), Punjab Tirath Yatra Samiti invites bids from eligible applicants for the Selection of Private Sector Partner (Operator(s)) for implementation of Mukh Mantri Titarth Yatra Scheme in the State of Punjab in the Cluster's namely Cluster - 1 - Amritsar, Cluster-2- Mohali and Cluster-3-

RFP Availability: RFP documents can be downloaded from the portal of https://www.revenue.punjab.gov.in and eproc.punjab.gov.in from 11th November

17th November 2025 at 1100 hours Pre Bid Meeting: 1st December 2025 upto 1500 hours Proposal Due Date: Bid Opening date: 1st December 2025 at 1530 hours

For any subsequent corrigendum, addendums and clarifications please refer to the websites mentioned above Punjab Tirath Yatra Samiti reserves the right to accept or reject any application

and to annul the selection process at any time, without incurring any liability and without assigning any reason thereof. Sd/-Secretary Revenue -Cum - Chairman

3673/12/2025-26/4885

Executive Committee, Punjab Tirath Yatra Samiti

MegaCo₹p MEGA CORPORATION LIMITED

CIN: L65100DL1985PLC092375 Registered Office: 62, Upper Ground Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi - 110020 Phone: +91-11-46557134 E-mail: info@megacorpltd.com Website: www.megacorpltd.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER **REQUESTS OF PHYSICAL SHARES**

Pursuant to the SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, shareholders of the Company are hereby informed that a Special Window has been opened for a period of six months from 7th July 2025 till 6th January 2026 (period) only for re-lodgement of transfer request of physical shares, which were lodged prior to the deadline of 1st April 2019 and rejected/ returned/ not attended to due to deficiency in the documents/ process/ or otherwise.

Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at MUFG Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Surva Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli West, Mumbai, Maharashtra-400083, India Contact 022-49186000 E-mail: mumbai@in.mpms.mufg.com

During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the company/ RTA, as on date) shall be issued only in demat mode, once all the documents are found in order by RTA

UPDATE KYC AND CONVERT PHYSICAL SHARES INTO DEMAT MODE The shareholders who are holding shares in physical form are requested to convert thei physical share certificates into dematerialized Form (in electronic form).

For Mega Corporation Limite Place: New Delhi (Kunal Lalani) Date: 11.11.2025 Director

थ्रे बैंक ऑफ़ बड़ौदा **)** Bank of Baroda

Branch: Sambhal

NOTICE WITH REGARD TO NON ACKNOWLEDGEMENT OF DEMAND NOTICES BY BORROWERS/GUARANTORS

NOTICE U/S 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT-2002 nentioned below have availed credit facilities from Bank of Baroda, Sambhal Branch and secured by way of mortgaged of u properties. The Borrowers/Guarantors failed to adhere to terms and conditions of sanction. The account became irregular and classified as NPA as per RBI guidelines. The Bank intends to enforce the said property mortgaged by you and issued demand notice on mentioned below dated under registered post/speed post, Confirmation of receipt of Notices on behalf of Borrowers/Guarantors have not been received. Hence this publication issued. Borrowers/Guarantors are called upon to pay the amount mentioned nereunder with contractual rate of interest, costs, charges etc., thereon within 60 days from the date of publication failing which the undersigned will be con auction of the mortgaged property under the provision of said act to realize our Bank's dues. The borrower's attention is invited to provisions of Sub Section (2) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

SI. No.	Name of the Borrower/Guarantor	Details of Mortgaged Property	Date of Demand Notice	Amount Due as per Demand Notice					
	386, Mohalla- Chaman Sarai, Sambhal, U.P244302. 2. Mr. Adil S/o Mr. Rizwan (Proprietor), Address: 386, Mohalla- Chaman Sarai, Sambhal, U.P244302. Guarantor : Mr. Mohd. Tariq S/o Mr. Haji Chhote, Address:	1. Hypothecation of Stock and Book Debts 2. Equitable Mortgage of a Commercial Land and Building in the name of Mr. Adil S/o Rizwan situated at Gata No. 143 of Moh. Badaun Darwaza, Bahar Chungi, Tehsil & Distt. Sambhal, U.P. with admeasuring area 344.40 sq. mtr. pertaining to Two Sale Deeds of Serial No. 10331, dated 05.09.2018 and serial No. 10332, dated 05.09.2018. Boundary as per site. East: 27 ft wide Raasta, West: Land of Mrs. Munni, North: Baag of Haji Mateen, South: Land of Haji Zafeer & Naim Ahmad.	Date of NPA 14.10.2025	+ further unapplied interest thereon w.e.f.					
Da	Date: 11.11.2025 Place : Sambhal Authorized Officer								

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No.802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai-400069 Kosi Kalan Branch: Kashika Complex, 1st Floor, Shop No 848/1, Ward No. 5, Near Hindu Inter College, Kosi Kalan, Mathura - 281403 (Uttar Pradesh; **Dadri Branch:** Khasra No. 342,1st Floor, Main G.T. Road, Dadri, Gautambudh Nagar - 203207 (Uttar Pradesh)

E-AUCTION – SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of immovable Properties under the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" with no known encumbrances

S. No.	Borrower(s) / Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property	Reserve Price (RP)	Earnest Money Deposit (EMD) (10% of RP)	Nature of possession
	(Loan Code No. 15610000063 / Kosi Kalan Branch) Gambheer Singh (Borrower) Chandra Vati (Co-Borrower)	07-12-2023 & ₹ 9,44,824/-	All that part & parcel of property bearing, House at Plot No.29 Chamunda Colony Mouza Sonkh Urf Dungra Patti Goverdhan Road, Mathura Uttar Pradesh-281123. Boundaries: East - Plot No. 30, West - Plot No. 28, North - Land Banne Singh & Other, South - Road 18 Ft. wide	₹ 14,96,304/-	₹ 1,49,630/-	Physical
	(Loan Code No. 16910000378 / Dadri Branch) Chand Kiran (Borrower) Anita A (Co-Borrower)	12-05-2025 & ₹ 4,31,626/-	All that part & parcel of property bearing, House At Plot No. 43A Situated in Part of Khasra No. 707, Sanjay Vihar, Village Kulshera Paragna Dadri Tehsil & District Gautambuddh Nagar - 201306 (U.P.). (Property Area 25.08 Sq. Mtrs.) Boundaries: East - Rasta 16 Feet Wide, West - Plot No. 24, North - Plot No. 42/Bablu, South - Plot No. 43B/Renuka Tiwari	₹ 9,00,000/-	₹ 90,000/-	Physical

- 1. Last Date of Submission of DD of Earnest Money Deposit along with KYC, Tender Form and accepted Terms and conditions (Tender Documents) is 29-11-2025 within 5:00 PM at the Branch Office address mentioned herein above or uploaded on https://bankeauctions.com. Tenders documents received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.
- Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 01-12-2025 on https://bankeauctions.com at 03.00 PM to 04.00 PM.
 AHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is
- Basis' and 'Whatever Is There Is Basis'.
- 4. The Demand Draft Should be made in favorof 'Aadhar Housing Finance Limited' Only.
 5. Auction/bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website https://bankeauctions.com. Bidders are advised to go through the website for detailed
- terms before taking part in the e-auction sale proceedings.

 The intending bidders should register their names at portal M/s C1 INDIA PVT LTD through the link https://bankeauctions.com/registration/signup, and get their User ID and
- https://bankeauctions.com
- 7. For further details contact Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited, Shubham Rana (Contact No. 9719111790) & Rakesh Tiwari (Contact No. 9570443300) OR the service provider M/s C1 INDIA PVT LTD, Mr. Prabhakaran, Mobile No: +91-74182-81709, E-mail: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com, Phone No. +917291981124 /25 /26 As on date, there is no order restraining and/or court injunction AHFL/the authorized Officer of AHFL from selling, alienating and/or disposing of the
- 8. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aadhar Housing Finance Limited (AHFL), secured creditor's website i.e www.aadharhousing.com.
- The Bid incremental amount for auction is Rs.10,000/-.
 This newspaper publication and the data contained herein is intended for general public dissemination. Any reproduction, distribution, transmission, or republication of this
- content, in whole or in part, in any form or by any means, whether print, digital, electronic publication in any form, e-mail or web publications, or otherwise through any mode is strictly prohibited. Any unauthorized use of the above content through any mode may result in appropriate legal action by AHFL. (Authorised Officer)

For Aadhar Housing Finance Limite Date: 12.11.2025

HDFC	BANK	HDFC BANK LTD.
<u> </u>	L IIDI O DAINI	Head Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013
We understand	your world	Regional Office: HDFC Bank Ltd; Dept For Special Operations, Ground Floor, Gulab Bhawan, 6 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
		E-AUCTION SALE NOTICE

E-AUCTION SALE NOTICE
PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of immovable property mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 (Rules"). Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/Mortgagors/Guarantor in particular that, the Authorized Officer of HDFC BANK had taken possession of the following property, being a secured asset, ("Property") pursuant to demand raised vide notice's dated 03.06.2019 and 03.06.2019 issued under Sec 13(2) of the Act in the following loan account with right to sell the same on "As IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER IS THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of Bank's dues plus interest etc. as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules proposes to realize the Bank's dues by sale of the Property. The sale of the leasehold rights in the below-mentioned Property shall be conducted by way of E-Auction through Web Portal: https://www.bankeauctions.com

, ui	incauotiono.oom					
	DESCRIPTION OF IMMOVAL	BLE PROPERTIES/DET	AILS OF ACC	DUNT/AM	IOUNT/EMD	/ETC
	D-4-11 f	A	1	_		

	S. No.	Name of the Branch & Account	Name of the Mortgagor & Guarantors of the property	Details of property	Amount as per Demand Notice	Inspection Date and Time	Reserve Price EMD	Date/ Time of e-Auction	Last Date for Receipt of Bids	Name of Authorised Officer/ Phone No./ Email Id
- 1		710004111	or the property		Demand Notice Date		Bid Increase Amount	e-Auction	OI DIUS	Email ra
	1	HDFC Bank Ltd, Delhi M/s Jai Apparels Account No.: 50200013691082	Mortgagors: Rakesh Kumar Aggarwal <u>Guarantors:</u> Mr.Mukesh Agarwal Mr. Rakesh Kumar Aggarwal	yards, situated in layout plan of Jagriti Nagar	Dues as on 31.05.2019 with further interest along with the costs and expenses till the date of full and final payment under the	05/12/2025 3.00 PM to 04.00 PM.	Rs.2,42,00,000/- Rs. 24,20,000/- Rs. 1,00,000/-	12/12/2025 1.00 PM to 02.00 PM	09/12/2025 up to 4.00 PM	Mr Ankush Saini Mobile : 9310998589 ankush.saini@ hdfcbank.com
	2	HDFC Bank Ltd, Delhi M/s M R Enterprises Account No.: 50200013698182	Rakesh Kumar Agarwal <u>Guarantors:</u> Mr.Rakesh Kumar Agarwal		Rs. 47,76,824/- Dues as on 31.05.2019 with further interest along with the costs and expenses till the date of full and final payment under the Loan account's.					

3rd June 2019 **TERMS & CONDITIONS:**

. The e-Auction is being held on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER IS THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS".

The interested bidders shall submit their EMD details and documents through Web Portal: https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with <a href="https://w

3. The interested bidders are also requested to submit KYC documents i.e Copy of PAN Card; Proof of identification/Address Proof (KYC) viz self-attested copy of Voter ID card/Driving License/Passport/Ration Card etc. and should carry their original for verification.

4. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance /statutory dues like property taxes, society dues etc. on the Property. The Bank however shall not be responsible for any outstanding statutory dues/encumbrances/Municipal Corporation Dues/electricity dues/Lease rent, water dues, Property tax, charges/tax arrears including any third party claim etc, if any and it will be the liability of the buyer and buyer may inquire it independently.

5. That physical possession the secured asset/property has been obtained on dated 19.11.2020 from Court Receiver Mrs. Mukta Arora appointed by Hon'ble Ms.Muna Tardi Kerketta, CMM, North Karkardooma Courts, Delhi in SF No 257/19.

6. The intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of Property & to inspect & satisfy themselves. Property can be inspected strictly on the

The intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of Property & to inspect & satisfy themselves. Property can be inspected strictly on the above-mentioned date and time.

above-mentioned date and time.
The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact our service provider M/s. C1 India Pvt. Ltd., Plot No 301, Gulf Petro Chem Building, Udyog Vihar, Phase 2, Gurgaon. Helpline No's: 0124-4302020/21/22/23/24, Mr Mithalesh Kumar Mobile: 7080804466, Help Line e-mail ID: support@bankeauctions.com and for any property related query may contact the Authorized officer as mentioned above in office hours during the vertical date (10 AMAS 5 BM)

Mobile: 706004406, Relp Line e-man in: support@oarneauctions.com and for any property related quoty may contact the relation leading the working days. (10 AM to 5 PM).

The Authorized officer reserve its right to cancel this auction/bid any time without assigning any reason. The highest bid shall be subject to approval of HDFC Bank Limited. Authorized Officer reserves the right to accept/reject all or any of the offers/ bids so received without assigning any reasons whatsoever. His decision shall be final & binding. If highest bidder fails to make payment as per terms & conditions of sale/auction, including provisions of the SARFAESI Act, 2002 then Authorized Officer may accept the bid of second highest bidder at his sole discretion, but it cannot be

claimed as right by the second highest bidder.

9. (FOR DETAILED TERMAND CONDITIONS PLEASE REFER TO OUR WEBSITE www.bankeauctions.com). Date: 12.11.2025, Place: Delhi/NCR

Authorised Officer, HDFC Bank Ltd

AAVAS FINANCIERS LIMITED

DCB Bank Limited.

CIN:165922RJ2011PLC034297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020



DCB BANK

AUCTION NOTICE Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with

roviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of AAVAS FINANCIERS LIMITED Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is ", and 'Whatever there is" basis. The details of the cases are as under.

Where is , 7515 What is , and What ever there is basis. The details of the cases are as an act.								
Name of Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors/Mortagors	Dues As on 13(2) Demand Poss-		Reserve Price For Property	Earnest Money For Property	Date & Time of Auction	Place of Tender Submission, Tender Open & Auction at Aavas Financiers Ltd.		
ROHIT YADAV, MRS. MEETA YADAV,MR. DHANPAL YADAV (AC NO.) LNNOH02218- 190088814	Rs. 13,95,976.00/- DUES AS ON 10 NOV 2025	7 JUN 22 Rs. 798497/- DUES AS ON 6 JUN 22	24	FREEHOLD RESIDENTIAL PROPERTY (RHS PORTION), 3RD FLOOR, VACANT PLOT NO. 152, KHAŠRA NO. 303, BLOCK NO. A, GAGAN VIHAR COLONY, BHERAMPUR URF BHOPURA, LONI, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH ADM.41.80 SQ. MTRS	Rs. 773453/-	Rs. 77345/-	01.00 PM 26 NOV 2025	1ST FLOOR, B- 38, PARIJAAT BHAWAN, RDC RAJ NAGAR, GHAZIABAD – 201002-201002, UTTAR PRADESH- INDIA
Terms & Conditions: 1). The person, taking part in the tender, will have to deposit his offer in the tender form provided by the AFL which is to be collected from the above branch offices								

during working hours of any working day, super scribing "Tender Offer for name of the property "on the sealed envelope along with the Cheque/DD/pay order of 10% of the Reserve Price as Earnest Money Deposit (EMD) in favour of AAVAS FINANCIERS LIMITED payable at Jaipur on/before time of auction during office hours at the above mentioned offices. The sealed nvelopes will be opened in the presence of the available interested parties at above mentioned office of AAVAS FINANCIERS LIMITED The Inter-se bidding, if necessary will also take place nong the available bidders. The EMD is refundable if the bid is not successful. 2). The successful bidder will deposit 25% of the bidding amount adjusting the EMD amount as initial deposi mediately or within 24hrs after the fall of the hammer towards the purchase of the asset. The successful bidder failing to deposit the said 25% towards initial payment, the entire EMC deposited will be forfeited & balance amount of the sale price will have to be deposited within 15 days after the confirmation of the sale by the secured creditor; otherwise his initial paymen deposited amount will be forfeited. 3). The Authorised officer has absolute right to accept or reject any bid or adjourn/postpone the sale process without assigning any reason therefore. I the date of tender depositing or the date of tender opening is declared as holiday by Government, then the auction will be held on next working day. 4). For inspection and Interested parties who want to know about the procedure of tender may contact AAVAS FINANCIERS LIMITED 201,202, IInd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, jaipur-302020 o Ramesh Choudhay 8690001158 or respective branch during office hours. Note: This is also a 15/30 days notice under Rule 9(1)/8(6) to the Borrowers/Guarantors/Mortgagor of the above said loan accounts about tender inter se bidding sale on the above mentioned date. The property will be sold, if their out standing duesare not repaid in full.

Place : DELHI Date : 12-11-2025 **Authorised Officer Aavas Financiers Limited**

Registered Office: - 6th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002 You the below mentioned borrower(s), co-borrower(s) have availed loan/s facility(ies) from DCB Bank Limited by mortgaging your immovable properties (securities). Consequent to your defaults your loans were classified as non-performing assets. DCB Bank Limited For the recovery of the outstanding dues, issued demand notice under Section 13(2) of The Securitization And Reconstruction Of Financial Asset And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (the Act), the contents of which are being published herewith as per Section 13(2) of the Act read with rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of service upon you. Details of the borrowers, co-borrowers, properties

_	tgaged, outstanding dues, demand notice sent under Section 13(2) and	amount claimed there under are given as under:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sr. No.	Name and address of the Borrower, Co-Borrower/Guarantor, Loan Account No., Loan Amount	Secured property address	Demand notice date Outstanding dues NPA Date
1.	1. Mr. Mohd Akram S/o Late Mohd Bashir, 2. Mrs. Mubina W/o. Mr. Mohd Akram, 3. Mr. Ashraf S/o Late Mohd Bashir, 4. Mr. Waseem S/o Late Mohd Bashir, 4. Mr. Waseem S/o Late Mohd Bashir. All Address At- Thakur Wali Gali Mullapada Bhujpura Aligarh Uttar Pradesh - 202001 Loan Account Number- DRBLALI00537338/ DRBLALI00593350 Loan Amount Sanctioned: Rs.16,39,726/-	All piece and parcel of a House Property Having an Area 87.32 Sq.meters which is part and parcel of Khasra No.28 situated at Mullapada Bhujpura, Pargana And Tehsil-Koil, District-aligarh, Which Has Following Boundaries: East: -rasta 8 Feet Wide Now 14 Feet Wide, Measuring This Side 18.8 Feet, West:-p/o Mistri Now H/o Shuttering Wale, Measuring This Side 18.8 Feet, North: - P/o Kiswar Jahan Now H/o Chand, Measuring This Side 50 Feet, South: - Plot Of Majeed Now Plot Of Other, Measuring This Side 50 Feet.	2) Rs.17,59,092/-(Rupees Seventeen Lakh Fifty Nine Thousand Ninety Two Only) as on 04th October 2025 3) NPA Date - 04-06-2025
3.	1. Mr. Ajay Kumar Singh S/o Mr. Sriniwas Singh, 2. Mrs. Priyanka Singh W/o Mr.ajay Kumar Singh, All Address At- A-19 Jagat Puri Gali No 3 Block A Krishna Nagar New Delhi-110051 Loan Account Number- DRHLNOI00440230 Loan Amount Sanctioned: Rs.70,00,000/- 1. Mr. Kallan Khan S/o Rahes,	All piece and parcel of Property Bearing Flat No. A-1901 Having Carpet Area of 133.621 Sq.mtr Type 3s on 19th Floor in Tower A Along With Closed Parking Admeasuring 11.75 Sq.mtr in the Building Known As Sunshine Solaris Constructed On Plot No. SC-01/D-02 situated in Sector-79 Noida Tehsil & Dist. Gautam Budh Nagar.U.P. All piece and parcel of Property One Kita House Part Of Khasra	2) Rs.71,51,412.34/- (Rupees Seventy One Lakh Fifty One Thousand Four Hundred Twelve And Thirty Four Paisa Only) as on 08th October 2025 3) NPA Date - 02-09-2025
	2. Mrs. Nisha Nisha W/o Kallan Khan. All Address At- Shahapur Bangar Mathura-281401 Loan Account Number- DRBLMAT00591084 Loan Amount Sanctioned: Rs.10,40,377/-	No.665 Area Admeasuring 154.68 Sq.mtr Situated At Mauza Nauhjheel Bangar Tehsil Mant Dist.mathura Which Is Bounded By. East- House Of Ishak 90 Ft, West- Land Of Rafik 90 Ft, North- Land Of Shakir Mistri 22 Ft, South- Road 15 Ft	2) Rs.10,95,020/- (Rupees Ten Lakh Ninety Five Thousand Twenty Only) as on 10th October 2025 3) NPA Date - 03-07-2025
4. 5.	1. Mr. Irfan Irfan S/o Niyaji, 2. Mrs. Anvari Anvari W/o Mr. irfan Irfan. All Address At- Vill. Khiwai Meerut Uttar Pradesh Pin Code - 250344 Loan Account Number- DRBLMEE00584992 Loan Amount Sanctioned: Rs. 7, 13, 271/- 1. Mr. Gulzar Ahmed,	All piece and parcel of Land In Khasra No.1838 Land Area Admeasuring 0.0060 Hec.situated At Village Khiwai Pargana & Tehsil Sardhana Dist.meerut Bounded By. East- 10 Mtrs/part Of Seller Property, West- 10 Mtrs/part Of Seller Property, North-6 Mtrs/part Of Seller Property, South-6 Mtrs/road 14 Ft Wide. All the piece and parcel of House No 17/246 Admeasuring 97.53 Sq	2) Rs.7,69,304/- (Rupees Seven Lakh Sixty Nine Thousand Three Hundred Four Only) as on 10th October 2025 3) NPA Date - 03-07-2025
ο.	2. Mrs. Soni Begum. All Address At- 4/372 Gali No 3 Dodhpur Kela Nagar Nai Avadi Aligarh- 202001 Loan Account Number- DRBLALI00568308 Loan Amount Sanctioned: Rs.10,00,000/-	Mtr Situated At Bhujpura Mulla Para Bhujpura Pargana Teh: Koil Dist: Aligarh Bounded By Towards East: 18 F1 Road, Towards West: House Of Suvrati, Towards North: House Of Mehandi Hasan, Towards South: House Of Pramod Kumar.	
6.	Mr. Amit Kumar, Mrs. Poonam Rani. All Address At- Village- Surajpur Greater Noida G.b. Nagar Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh-201306 Loan Account Number- DRBLNOI00487954 Loan Amount Sanctioned: Rs.3,70,000/-		2) Rs.3,39,715.7/- (Rupees Three Lakh Thirty Nine Thousand Seven Hundred Fifteen And Seventy Paisa Only) as on 24th October 2025 3) NPA Date - 12-06-2025
7.	1. Mr. Sonu Kumar, 2. Mrs. Sonam Sonam, 3. Mr. Vijendra Vijendra. All Address At- Shrivasti Jagner Road Naripura Agra Uttar Pradesh 282001 Loan Account Number- DRBLAGR00579795 Loan Amount Sanctioned: Rs.6,27,776/-	Sq. Mtrs Part Of Khasra No.251 Covered Admeasuring 30 Sq.mtr Situated At Mauza Naripura Tehsil & Dist Agra.bounded By. East- Land Of Others, West- Land Of Lalaram, North- Land Of Others, South- Road And Exit 10ft Wide.	One Thousand One Hundred Seventy Five Only) as on 24th October 2025 3) NPA Date - 02-08-2025
3.	Mr. Premveer Singh, Ms. Nisha Singh. Ms. Nisha Singh. Mil Address At- LIG-1, First Floor Ozone City Aligarh Aligarh Uttar Pradesh 202001 Loan Account Number- DRHLALI00601326 Loan Amount Sanctioned: Rs.8,50,000/-	All piece and parcel of Property Bearing Flat No.I.i.g1 At First Floor Build up Area 30.34 Sq.meters = 326.53 Sq.feet which is part and parcel of Khasra No.171/1 situated in "Ozone City", Phase-3, Pargana & Tehsil- Koil, District- Aligarh, Which Has Following Boundaries: East- Other Land, Measuring This Side 4 Meter, West-4.5 Meter Wide Rasta, Measuring This Side 4 Meter, North- Green Area, Measuring This Side 11.75 Meter, South- Plot No.I.i.g2, Measuring This Side 11.75 Meter.	2) Rs.8,73,704/- (Rupees Eight Lakh Seventy Three Thousand Seven Hundred Four Only) as on 24th October 2025 3) NPA Date - 02-08-2025
9.	1. Mr. Mohammad Yasin, 2. Mrs. Muradan Begum, 3. Mr. Chhotey Khan. All Address At- 960/01 Street No.1 Jeevan Garh Koil Aligarh Aligarh Uttar Pradesh 202001 Loan Account Number- DRBLALI00565781 Loan Amount Sanctioned: Rs.11,40,681/-	North-60 Ft- House Of Aarif, South-60 Ft- Plot Of Seller.	2) Rs.11,73,073/- (Rupees Eleven Lakh Seventy Three Thousand Seventy Three Only) as on 24th October 2025 3) NPA Date - 02-08-2025
10.	Mr. Mohd Shaloo, Mrs. Sofiya. All Address At- H.no 110 Mohalla Lal Mohammad Khatauli Muzaffarnagar Meerut Uttar Pradesh 250002 Loan Account Number- DRBLMEE00555201 Loan Amount Sanctioned: Rs.16,49,482/-	No. 287/1, Having An Area 68.27 Sq. Meters Situated At Mohalla Islam Nagar, Ward No. 24, New Ward No. 18, Kasba Khatuali, Pargana & Tehsil Khatauli, Distt. Muzaffarnagar. Bounded By. East: 16 Ft. 2 Inch / Rasta 10 Ft. Wide, West: 16 Ft. 1 Inch / House of Dilshad, North: 45 Ft. 6 Inch / House of Shamim, South: 45 Ft. 6 Inch / Rasta 10 Ft. Wide.	Thirty Eight Thousand Nine Hundred Forty One Only) as on 24th October 2025 3) NPA Date - 02-08-2025
	Mr. Mohd Waseem, Mrs. Shabnam. All Address At- Shop No 01 Ghadde Wali Masjid Shamnagar Road Meerut Uttar Pradesh 250002 Loan Account Number- DRBLMEE00592195 Loan Amount Sanctioned: Rs.4,46,028/-	Ft / House Of Kunwar Shahjad. North: 09 Ft / Road 7 Ft Wide. South: 09 Ft / House Of Ayas.	2) Rs.4,25,692/- (Rupees Four Lakh Twenty Five Thousand Six Hundred Ninety Two Only) as on 24th October 2025 3) NPA Date - 02-08-2025
	Meerut Uttar Pradesh 250002 Loan Account Number- DRBLMEE00592198 Loan Amount Sanctioned: Rs.5,23,885/-	104, Later No. 86 & Present No. 128, Having An Area 30.33 Sq. Meters i.e. 36.28 Sq. Yards Situated Af Mohalla Darodgiran, Meerut City, Meerut. Bounded By. East: 8 Ft. 9 Inch / Gate Of House Then Gali 6 Ft. Wide, West: 11 Ft. 6 Inch / House Of Mahmood Chune Wale, North 31 Ft. 6 Inch / Rest Part Of House Then Property Of Shamim S/o Abdul Alim, South: 33 Ft. / House Of Momin.	Nineteen Thousand Three Hundred Fifty Eight Only) as on 24th October 2025 3) NPA Date - 02-08-2025
13.	1. Mr. Javed, 2. Mrs. Shahnaj, 3. Mr. Guljar. All Address At- Baranawa Baghpat Baranawa Bhagpat Uttar Pradesh 250645 Loan Account Number- DRBLMEE00596517 Loan Amount Sanctioned: Rs.6, 42, 455/-		
14.	1. MR. SARFARAJ, 2. MR. YASIN, 3. MS. IMRANA. All Address At- H NO 105 IDGAH COLONY LISARI ROAD MEERUT 250002 Loan Account Number- DRBLMEE00472645/ DRHLMEE00472627/ DRBLMEE00528613 Loan Amount Sanctioned: Rs.25,15,907/-		2) Rs.25,80,031.62/- (Rupees Twenty Five Lakh Eighty Thousand Thirty One And Sixty Two Paisa Only) as on 24th October 2025 3) NPA Date - 02-09-2025
	Mr. Vilal Vilal, 2. Ms. Shayra Bano, 3. Mr. Nadir Nadir, 4. Mr. Kadir Ali, 5. Mr. Faijan Faijan. All Address At- Kalsi Gate Tilwari Dehradun Uttaranchal 248001 Loan Account Number- DRMBDEH00434638 Loan Amount Sanctioned: Rs.9,28,413/-	All that property comprising of Land Bearing Khata No. 511 (fasli 1410 To 14155 Khasra No. 3862 Min Area Measuring 100.37. Sq. Mtrs., situated at Mauza Rasoolpur (Nagar Palika Parishad Vikasnagar), Pargana Pachwa Doon, Tehsil Vikasnagar, Distt. Dehradun, which is Bounded & Butted as Under: - East-Land Of Shri Shaima, Side Measuring 40 Ft. West-land Of Seller Side Measuring 40 Ft. North-land Of Shri Abid Mirza, Side Measuring 28 Ft. South-15 Ft Wide Passage, Side Measuring 26 Ft.	2) Rs.7,64,974.8/- (Rupees Seven Lakh Sixty Four Thousand Nine Hundred Seventy Four and Eighty Paisa Only) as on 24th October 2025 3) NPA Date - 02-08-2025
16.	Mr. Veer Pal, Ms. Kusama Devi. All Address At- Village Karbhana Dadhupura Agra Uttar Pradesh - 282006 Loan Account Number- DRBLAGR00593572 Loan Amount Sanctioned: Rs.10,49,000/-	All piece and parcel of Land Measuring Plot Area 461 Sq. Mtr. Khasra No. 665, Mauza Karbhna Mustkil, Tehsil & Dist. Agra, Uttar Pradesh.bounded By. East - 3 Mt. Wide Rasta & Exit, West - Mata Ka Mandir, North - Seller Land, South - Plot Of Nirmla Devi.	
17.	Mr Suhail, 2. Mohd Shaad Qureshi, Mrs. Seema. All Address At- 20 Futa Center Diwan Ji Sarif Wali Gali Shyam Nagar	All piece and parcel of Property Bearing A Residential Property, Old House No. 21 & 22, Present Nagar Nigam No. 823, Admeasuring	1) 24-10-2025

Inam, North - House Of Others, South - House Of Bisahrat. You the borrower/s and co-borrowers/guarantors are therefore called upon to make payment of the above mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 days of this notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above-mentioned securities. Your attentior is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act by virtue of which you are at liberty to redeem the secured asset within period stipulated in the aforesaid provision Please note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent.

All Address At- Meerpur Gandever Behat Near- Primeri School Measurement 26 X45 Feet, Khasra Number 33 and 34 Mi Situated One Only) as on 24th O Saharanpur Uttar Pradesh - 247121 In Mouza Mirpur Gandevad Pargana Faizabad Tehsil Behat District 3) NPA Date - 02-09-2025

All Address At- 20 Futa Center Diwan Ji Sarif Wali Gali Shyam Nagar Area 27 Sq. Yards i.e. 22.58 Sq Mr. Situated At Mohalla Saddik Meerut Uttar Pradesh - 250002

Nagar, District Meerut, Uttar Pradesh.bounded By. East - 24 Ft. 11

Place: Aligarh, Gautam Budh Nagar, Mathura, Meerut, Agra, Muzaffarnagar, Baghpat, Dehradun, Saharanpur

18. 1. Mr. Aqib Mirza, 2. Mr. Naushad A

3. Ms. Musharat Musharrat.

Loan Account Number- DRBLMEE00594499

Loan Account Number- DRBLSAH00602710 Loan Amount Sanctioned: Rs.10,00,000/-

Loan Amount Sanctioned: Rs.7,49,808/-

DCB Bank Limited

ithorized Office

Two Thousand Nine Hundred Thirty

Nagar, District Meerut, Uttar Pradesh.bounded By. East - 24 Ft. 11 Seven Only) as on 24th October 2025 Inch/ House of Akbar, West - 24 Ft. 11 Inch/ House Of Shah Alam, 3) NPA Date - 02-09-2025

All piece and parcel of Property Bearing One Kita Residential Plot 1) 24-10-2025
House Admeasurning Area 130 Sq. Yards i.e. 108.69 Sq. Meter In 2) Rs.10,62,931/- (Rupees Ten Lakh Sixty

North - 9 Ft. 9 Inch/ House of Sageer, South - 9 Ft. 9 Inch/ Road 18 Ft

Which 41.80 Sq. Meter Has Two Rooms With Verandah Built With

Saharanpur Along With All Rights And Entitlements Of Every Kind Related Thereto Bounded By. East - Way 12 Ft Wide, West - Plot Of





पारस डिफेंस ऐंड स्पेस टेक्नॉलजीज रक्षा मंत्रालय से एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए नया ऑर्डर हासिल किया ₹ 689.5 पिछला बंद भाव

1.9 %



दूसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 23 प्रतिशत बढ़ा ₹ 1,327.2 पिछला बंद भाव ₹ 1,401.8 आज का बंद भाव



दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 70 प्रतिशत बढ़ा

₹ 447.0 पिछला बंद भाव ₹ 489.5 आज का बंद भाव 9.5 % ▲



में 26 करोड़ रुपयें का शुद्ध लाभ दर्ज किया ₹ 675.6 पिछला बंद भाव ₹ 699.7 आज का बंद भाव

संक्षेप में

सॉफ्टबैंक ने एनवीडिया में अपने सभी शेयर बेचे

जापान की प्रौद्योगिकी कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रप कॉर्प ने एनवीडिया कॉर्प के सभी शेयर 5.83 अरब डॉलर में बेचने की मंगलवार को जानकारी दी। कंपनी बयान के अनुसार, सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया कॉर्प के अपने सभी शेयर 5.83 अरब अमेरिकी डॉलर में बेच दिए हैं। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प ने साथ ही जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए उम्मीद से कहीं अधिक कमाई की सूचना भी दी। भाषा

ईवी बाजार में उतरी इंडिया यामाहा मोटर

इंडिया यामाहा मोटर ने अपने पहले बैटरी-चालित मॉडल एरॉक्स-ई और ईसी-06 की पेशकश के साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में प्रवेश की घोषणा की। यह कदम कंपनी की 2026 के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल, दोनों श्रेणियों में 10 नए मॉडल पेश करने की प्रमुख रणनीति का हिस्सा है। यामाहा को उम्मीद है कि नेटवर्क की तैयारी पूरी हो जाने के बाद वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) तक उसके नए ईवी शोरूम में आ जाएंगे।

आइकिया इंडिया का राजस्व ६ प्रतिशत बढ़ा

आइकिया इंडिया का राजस्व वित्त वर्ष 25 में 6 प्रतिशत बढ़कर 1,860 करोड़ रुपये हो गया, क्योंकि इसके विभिन्न चैनलों पर 11 करोड़ ग्राहक जुड़े।स्वीडन की फर्नीचर क्षेत्र की खुदरा विक्रेता ने विज्ञप्ति में कहा कि एबिआ आय में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वोडा आइडिया को एजीआर मसले पर 'दीर्घावधि समाधान' की उम्मीद

नई दिल्ली, 11 नवंबर

डाफोन आइडिया (वी) ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दूरसंचार विभाग को वित्त वर्ष 2017 तक के सभी देय समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) संबंधित बकाया का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दिए जाने के बाद उसे सरकार से 'दीर्घावधि समाधान' की उम्मीदहै। वी केएक प्रमुख अधिकारी ने यह बात कही है।

नए नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत किशोर ने मंगलवार को सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के लिए अर्निंग कॉल में विश्लेषकों से कहा, 'हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं और हमें परी उम्मीद है कि सरकार 49 प्रतिशत हिस्सेदार (शेयरधारक) होने के नाते, एक दीर्घकालिक समाधान पर विचार करेगी तथा हम दरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ संपर्क में हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि यह मामला कब तक सुलझ जाएगा, लेकिन सरकार ने बहुत मदद की हैं और हमें पूरी उम्मीदहै कि यह जल्द से जल्द हल हो जाएगा।' किशोर पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत के आदेश के बाद अपेक्षित समाधान की संभावित समय-सीमा पर सवालों का जवाब दे रहे थे।

अदालत ने सरकार को अतिरिक्त एजीआर



न्यायालय के फैसले के बाद कंपनी अगले कदम के लिए दूरसंचार विभाग से बातचीत कर रही है। सितंबर तक कंपनी पर बकाया एजीआर 79.500 करोड़ रुपये था

मांग के संदर्भ में पनर्विचार करने और उचित निर्णय लेने की अनुमति दी, साथ ही वित्त वर्ष 2016-17 तक ब्याज और दंड सहित सभी एजीआर बकाया का व्यापक रूप से पनर्म-ल्यांकन और समाधान करने की अनुमति दी। किशोर ने कहा. 'हम इस मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए दूरसंचार विभाग के साथ बातचीत कर रहे हैं।'

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि

सितंबर 2025 तक बकाया एजीआर 79,500 करोड़ रुपये था। वोडाफोन आइडिया के सितंबर तिमाही के नतीजों के अनुसार उसे मार्च 2026 तक 16,428 करोड़ रुपये की एजीआर किस्त का भुगतान करना है, जो डीओटी द्वारा वित्त वर्ष 2017 तक ब्याज और जुर्माने सहित एजीआर बकाया के पुनर्मू-ल्यांकन या पुनः आकलन के अधीन है। दुरसंचार कंपनी द्वारा नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए 20 वर्षों में वित्त वर्ष 2044 तक देय आस्थगित भुगतान संबंधित रकम (साथ ही एजीआर बकाया जो 2031 तक चुकाए जाने हैं) 2.01 लाख करोड़ रुपये है।

किशोर ने कहा कि सरकार ने 'स्पष्ट रूप से' यह कह दिया है कि भारतीय परिदृश्य में तीन प्राइवेट कंपनियों की आवश्यकता है और एजीआर मुद्दे का समाधान बैंकों से धन जुटाने की योजनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

उन्होंने कहा, 'हम ऐसे समाधान पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारी नजर में सरकार की ओर से सबसे अच्छा होगा और हमें लगता है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हाल में आया है. इसलिए बैंकों की दीर्घावधि फंडिंग को देखते समय इस पर थोड़ी निर्भरता रहेगी।'

तीसरे नंबर की दूरसंचार कंपनी ने 5जी शुरू करने और अपने 4जी कवरेज का विस्तार करने के लिए अगले तीन से पांच वर्षों के लिए 2024 में 50,000-55,000 करोड़ रुपये के पुंजीगत खर्च की रूपरेखा तैयार की थी। इस राशि में से 25.000 करोड़ रुपये बैंक फंडिंग से आएंगे, हालांकि, एजीआर मद्दे पर स्पष्टता की कमी के कारण दूरसंचार कंपनी को यह फंडिंग हासिल करने में देरी हो रही थी। उसने पंजी जुटाने के लिए कई गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के साथ भी चर्चा की थी।

मौजूदा वित्त वर्ष के लिए दूरसंचार कंपनी ने 7,500-8,000 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत खर्च की योजना तैयार की है।

गया स्माटफोन

नई दिल्ली, 11 नवंबर

अगस्त और सितंबर में त्योहारों के दौरान उच्च घरेलू मांग के कारण स्मार्टफोन निर्यात में आई थोड़ी मंदी के बाद अब एक बार फिर निर्यात में तेजी आई है।इसके साथ ही अक्टबर में यह रिकॉर्ड 2.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह अक्टूबर महीने और चालू वित्त वर्ष दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा निर्यात आंकड़ा है।पिछले साल इसी महीने में स्मार्टफोन निर्यात 2 अरब डॉलर रहा था।

नतीजतन, उद्योग और व्यापार निकायों के शुरुआती

अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष अक्टूबर में 2.4 2025-26 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) के अरब डॉलर तक लिए कुल स्मार्टफोन निर्यात पहुंच गया निर्यात 16 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले वित्त वर्ष की

इसी अवधि में दर्ज 10.6 अरब डॉलर की तुलना में लगभग 50 फीसदी की वृद्धि है। केवल इन सात महीनों में हुए निर्यात

ने पूरे 2023-24 के दौरान हासिल किए गए 15.5 अरब डॉलर के निर्यात को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। कल निर्यात में से लगभग 75 फीसदी ऐपल के दो विक्रेताओं फॉक्सकॉन औरटाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है। फॉक्सकॉन के दो और टाटा के तीन संयंत्र परिचालन में हैं। अनुमान के मुताबिक, सैमसंग का योगदान लगभग 14

कंपनियां और छोटे प्रत्यक्ष निर्यातक शामिल हैं। हालांकि, इस बारे में ऐपल इंक और सैमसंग से पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला।

फीसदी रहा, जबकि शेष 11 फीसदी हिस्सेदारी अन्य

कंपनियों की रही।इनमें पैडगेट टेक्नॉलजीज जैसी भारतीय

वृद्धि के लिए एआई पर इक्जिगो का दांव

अक्षरा श्रीवास्तव नई दिल्ली, 11 नवंबर

ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर (ओटीए) इक्जिगो एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) फर्स्ट प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। इसका मकसद महानगरों के बाहर से आने वाले यात्रियों के बढ़ते समृह की यात्रा संबंधी जरूरतों को पुरा करना है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में कंपनी के चेयरमैन और समूह मुख्य कार्य अधिकारी आलोक वाजपेयी ने कहा कि कंपनी ग्राहकों के वास्ते समाधान तलाश करने का इरादा रखती है। भले ही तुरंत कमाई की संभावना नहीं है, लेकिन इस रणनीति ने डच निवेश प्रोसस को 15 फीसदी हिस्सेदारी लेने के लिए

मझोले एवं कस्बाई इलाकों में 93.99 फीसदी पैठ और 2.400 ज्यादा कस्बों में फैला यह टैवल टेक प्लेटफॉर्म अगल एक अरब उपयोगकर्ताओं के लिहाज से बनाया जा रहा है।

वाजपेयी ने कहा, 'हमारी रणनीति बहुत आसान है। अगर ग्राहकों की कोई समस्या अनसुलझी और गंभीर है तो हम तरंत उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे. भले ही उससे हमें कोई कमाई नहीं हो।हमने जो कुछ भी बनाया है उससे आमदनी हमेशा दुसरे स्थान पर रही है।'

साल 2007 में 2007 में उड़ानों के लिए एक मेटा सर्च प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत करते हुए इसने ट्रेनों और बसों को जोड़ा और फिर आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी करके एक पूर्ण ओटीए में बदल गया।

दूसरी तिमाही में ओएनजीसी के मुनाफे पर पड़ी 18 फीसदी चोट टॉरंट पावर के मुनाफे में बीएस संवाददाता और भाषा नई दिल्ली/मुंबई, 11 नवंबर 50 फीसदी इजाफा

टॉरंट समूह की एकी कृत बिजली कंपनी टॉरंट पावर सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल ऐंड नेचुरल गैस का जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ जुलाई-करीब 50 प्रतिशत बढ़कर 741.55 करोड़ रुपये सितंबर तिमाही में तेल की कीमतों में गिरावट के हो गया। पिछले वर्ष इसी तिमाही में मुनाफा कारण 18 प्रतिशत घट गया। ओएनजीसी ने कहा कि कंपनी का शुद्ध लाभ जुलाई-सितंबर में 495.72 करोड़ रुपये रहा था। टॉरंट पावर ने शेयर 9.848 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन अवधि में 11.984 करोड़ रुपये दर्ज किया गया तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 7,953.91 था। यह गिरावट मुख्य रूप से कच्चे तेल की करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले इसी तिमाही कीमतों में कमी के कारण आई। कच्चे तेल की में 7,300.51 करोड़ रुपये थी। कीमत वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही की 78.33 डॉलर प्रति बैरल से घटकर चालू वित्त वर्ष टाटा पावर का शुद्ध लाभ

2025-26 की इस तिमाही में 67.34 डॉलर हो 14 प्रतिशत बढ़ा गई। ओएनजीसी ने दुसरी तिमाही में 46.3 लाख बीएसई के शुद्ध लाभ में

निजीक्षेत्र की प्रमुख एकीकृत बिजली कंपनी टाटा पावर का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 14 प्रतिशत बढकर 1.245 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से आय बढ़ने के कारण कंपनी का लाभ बढ़ा है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में उसे 1,093 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। टाटा पावर की आय सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में तीन प्रतिशत बढ़कर 15,769 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 15,2474 करोड़ रुपये थी।टाटा पावर ने कहा कि वह एक विशेष उद्देश्यीय इकाई में 40 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 1,572 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

रिलायंस पावर को 87 करोड़ रु का शुद्ध लाभ

रिलायंस पावर का जुलाई-सितंबर तिमाही में शद्ध लाभ 87 करोड़ रुपये रहा जिसे राजस्व में वृद्धि का समर्थन प्राप्त है। कंपनी के सोमवार देर रात जारी बयान के अनुसार, उसे पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 352 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। रिलायंस पावर ने कहा कि समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की कुल आय बढ़कर 2,067 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 1,963 करोड़ रुपये थी।

कोलते पाटिल डेवलपर्स को 10 करोड़ रु का घाटा

ब्लैकस्टोन के निवेश वाली कोलते पाटिल डेवलपर्स को वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 10.4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। उसे वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 9.7 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। कंपनी का परिचालनत राजस्व भी सालाना आधार पर 55.02 प्रतिशत घटकर 138.7 करोड़ रुपये रह गया, जो बिक्री की रफ्तार में सुस्ती का संकेत है।

पीसी ज्वैलर का मुनाफा 17 प्रतिशत मजबूत पीसी ज्वैलर का सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध

मुनाफा 17 प्रतिशत बढ़कर 209.54 करोड़

बाजार को दी सचना में कहा कि चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में कुल आय 63 प्रतिशत बढ़कर 894.93 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 548.54 करोड़ रुपये थी। भारत फोर्ज ने दर्ज किया

रुपये रहा। एक साल पहले 2024-25 की इसी

तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 178.88

करोड़ रुपये था। कंपनी ने मंगलवार को शेयर

299 करोड़ रु का लाभ भारत फोर्ज ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया

कि जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 243 करोड़ रुपये से बढ़कर 299 करोड़ रुपये हो गया। वहीं परिचालन आय 4.032 करोड़ रुपये रही जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 3,688 करोड़ रुपये थी। निदेशक मंडल ने सावधि ऋण, गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र या किसी अन्य ऋण साधन सहित विभिन्न माध्यमों के जरिये 2,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजुरी दे दी है।

हिंदुस्तान कॉपर के मुनाफे में 85 प्रतिशत की उछाल

हिंदुस्तान कॉपर का वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ करीब 85 प्रतिशत बढ़कर 186.02 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में मुनाफा 101.67 करोड़ रुपये रहा था। समीक्षाधीन तिमाही में उसकी आय सालाना आधार पर 550.05 करोड़ रुपये से बढ़कर 728.95 करोड़ रुपये हो गई।

बीएलएस इंटरनैशनल का लाभ 27 प्रतिशत बढ़ा

बीएलएस इंटरनैशनल सर्विसेज ने बताया कि सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 27.4 प्रतिशत बढ़कर 185.7 करोड़ रुपये हो गया।एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 145.7 करोड़ रुपये रहा था।

कामधेनु के शुद्ध लाभ में 18 प्रतिशत की मजबूती निर्माण स्टील बार निर्माता कामधेनु का सितंबर

तिमाही में शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढकर 18.7 करोड़ रुपये रहा है। खर्च घटने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है।

बलरामपुर चीनी का शुद्ध मुनाफा २०% लुढ़का

बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड (बीसी एमएल) का सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 20 प्रतिशत घटकर 53.9 करोड रुपये रह गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 67.2 करोड़ रुपये रहा था।

'अदाणी फर्मों की कर्ज पर निर्भरता घट रही'

देश में 12 सूचीबद्ध कंपनियों और लगभग 200 अरब डॉलर के संयुक्त बाजार पुंजीकरण के साथ कई बुनियादी

ढांचागत क्षेत्रों में काम करने वाले अदाणी समूह को दमदार परिसंपत्तियों और नकदी की मजबूत आवक से मजबूती मिल रही है। बैंक ऑफ अमेरिका (बोफा) की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।

टन कच्चे तेल का उत्पादन किया।

61 फीसदी की उछाल

देश के एकमात्र सुचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बीएसई

लिमिटेड का शुद्ध लाभ सितंबर 2025 में समाप्त

तिमाही में सालाना आधार पर 61 फीसदी की

उछाल के साथ 557 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

कंपनी का परिचालन राजस्व इस अवधि में 44

फीसदीकी बढ़ोतरी के साथरिकॉर्ड 1,068 करोड़

रुपये पर पहुंच गया। एक्सचेंज ने कहा कि यह

लगातार 10वीं तिमाही है जब उसके राजस्व में

बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

MegaCo₹p मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ६२, ऊपरी भूतल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-III, नई दिल्ली - ११००२० फोन: +91-11-46557134, **ई-मेल:** info@megacorpltd.com, वेबसाइटः megacorpltd.com

भौतिक शेयरों के अंतरण अनुरोधों के पुनः-प्रस्तुतीकरण हेतु विशेष विंडो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्डे (SEBI) MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई 2025 के अनुपालन में, कंपनी के साथ शयरथारकों को सूचित किया जाता है कि 7 जुलाई 2025 से 6 जनवरी 2026 तक (छह माह की अवधि) एक विशेष विंडो खोली गई है। यह विंडो केवल उन भौतिक शेयरों के अंतरण अनुरोधों के पुन-प्रस्तुतीकरण के लिए है, जो 1 अप्रैल 2019 की अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेज़ों/प्रक्रिया में कमी अथवा अन्य कारणों से अस्वीकृत, वापस कर दिए गए, या जिन पर

कार्यवाही नहीं हई थी। पात्र शेयरधारक अपने अंतरण अनुरोध, आवश्यक दस्तावेज़ों सहित, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) एमयूएफँजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, C-101, 247 पार्क, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, सूर्य नगर, गांधी नगर, विखरोली (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400083, भारत, संपर्क: 022-49186000, ईमेल: mumbai@in.mpms.mufg.com पर जमा कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान, जो प्रतिभूतियां अंतरण हेतु पुनः-प्रस्तुत की जाएंगी (उन अनुरोधों सहित जो वर्तमान में कंपनी/आरटीए के पास लंबित हैं), उन्हें केवल डिमैट मोड में ही जारी किया जाएगा, बशर्ते कि सभी आवश्यक दस्तावेज आरटीए द्वारा सही एवं पूर्ण पाए जाएं।

केवाईसी अपडेट करें और भौतिक शेयरों को डिमैट मोड में परिवर्तित करें जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक स्वरूप (पेपर सर्टिफिकेट) में रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे

अपने भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों को डिमैट मोड में परिवर्तित करें।

मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए स्थान: नर्ड दिल्ली तिथि: 11.11.2025 निदेशक

सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना लगाएगा अदाणी

अदाणीं समूह ने बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में प्रवेश की मंगलवार को घोषणा की। समूह की गुजरात के खावड़ा में 1,126 मेगावॉट/ 3,530 मेगावॉट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) स्थापित करने की योजना है जो भारत की सबसे बड़ी एवं दुनिया की सबसे बड़ी एकल-स्थान भंडारण परियोजनाओं में से एक होगी।

समूह ने बयान में कहा कि 700 से अधिक बीईएसएस कंटेनर वाली इस सुविधा के मार्च 2026 तक चालु होने की उम्मीद है। यह खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर का हिस्सा होगी जिसे विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र बताया जा रहा है। बीईएसएस परियोजना की विद्युत क्षमता 1126 मेगावॉट और ऊर्जा क्षमता 3530 मेगावॉट होगी।

अवसाद रोधी दवा के साथ चीन पहुंची जाइडस लाइफसाइंसेज

सोहिनी दास मुंबई, 11 नवंबर

जाइडस लाइफसाइंसेज ने 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम वाली अवसाद रोधी दवा वेनलाफैक्सिन एक्सटेंडेड-रिलीज (ईआर) कैप्सूल के लिए चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन (एनए-मपीए) से मंजुरी हासिल कर ली है। इसी के साथ कंपनी ने चीन के दवा बाजार में कदम रख दिया है। समृह को चीन में यह पहली मंजूरी मिली है जो इसके वैश्विक विस्तार की नई राह खोलती है।

मेजर डिप्रेसिव विकार (एमडीडी), सामान्य चिंता विकार (जीएडी), सामाजिक चिंता विकार (एसएडी) और दहशत विकार (पीडी) के लिए वेनलाफैक्सिन ईआर कैप्सूलों की सलाह दी जाती हैं। यह दवा मस्तिष्क में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का संतुलन बहाल



करने, मनोदशा में सुधार और चिंता कम करने में मदद करती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की अहम जरूरत पूरी होती है। इस कैप्सूल का विनिर्माण अहमदाबाद में जाइडस के मोरैया संयंत्र में किया जाएगा।

चीन में वेनलाफैक्सिन का बाजार साल 2020 में 29.4 करोड़ चीनी युआन रेनमिनबी (लगभग 4.52 करोड़ डॉलर) आंका गया था। साल 2025 तक इसके 47.363 करोड़ चीनी युआन रेनमिनबी तक पहुंचने का अनुमान है। यह बाजार 8.8 प्रतिशत की सालान चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। इसे

बढती अवसाद दर, बढते शहरी-करण और कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से बढ़ावा मिल रहा है।

जाइडस चीन में व्यवसायीकरण में तेजी लाने के लिए रणनीतिक साझेदारी और स्थानीय सहयोग का लाभ उठाने की योजना बना रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह दवाइयां मरीजों तक सुव्यवस्थित रूप से पहुंचे। यह मंजूरी नियमन वाले तरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की जाइडस की रणनीति के अनुरूप है।

इस बीच कंपनी ने हाल में संकेत दिया है कि उसने क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) के रोगियों में एनीमिया के इलाज के लिए मुंह से ली जाने वाली नई दवा डेसिड्स्टैट के क्लीनिकल परीक्षण चीन में पूरे कर लिए हैं और अपने चीनी साझेदार के साथ इसकी व्यावसायिक शुरुआत की तैयारी कर रही है।

जून तक 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित करेगी सेल्सफोर्स

उदिशा श्रीवास्तव नई दिल्ली, 11 नवंबर

वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स का लक्ष्य जून 2026 तक भारत में एक लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना है। कंपनी ने आज यह जानकारी दी। प्रतिभा विकास और एड-टेक कंपनी स्मार्टब्रिज के साथ साझेदारी में सेल्सफोर्स 'युवाएआई भारत : जेनएआई स्किल कैटेलिस्ट' कार्यक्रम के

तहत आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) कौशल देगी। युवाएआई - यानी 'युथ फॉर उन्नति ऐंड विकास विद एआई' कार्यक्रम एआई कौशल की राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर में शिक्षार्थियों

को भविष्य के लिए एआई कौशल से लैस करना है। कार्यक्रम के तहत कंपनियां मझोले और छोटे शहरों के शिक्षार्थियों पर ध्यान देंगी। उनका लक्ष्य शिक्षा और उद्योग जगत को बनाएंगी। सेल्सफोर्स के मुफ्त ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म टेलहेड के जरिये यह कार्यक्रम शिक्षार्थियों को विशेषज्ञों के लाइव सत्रों और अपनी रफ्तार से सीखने वाले मिले-जुले पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा। कार्यक्रम पूरा होने पर प्रतिभागियों को एआई-संचालित व्यावसायिक ऐप्लिकेशन में उनकी विशेषज्ञता प्रमाणित करने वाले डिजिटल प्रमाणपत्र मिलेंगे।

इस अवसर पर समृह समन्वयक (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकी प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) और इंडि-याएआई मिशन की सीओओ कविता भाटिया ने कहा, 'भारत के युवा हमारे एआई भविष्य की प्रेरक शक्ति हैं। इंडियाएआई मिशन के तहत युवाएआई कार्यक्रम के जरिये हमारा लक्ष्य सही कौशल और अवसरों के साथ उनकी क्षमता को उजागर करना है।'